

Date: 13th May, 2019

Ref.No. CS/S/L-338/2019-20

To,

To:

The Listing Department

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

"Exchange Plaza"

Bandra-Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai-400 051

Scrip Code: VMART Fax: 022-26598120

Email: cmlist@nse.co.in

To:

The Corporate Relationship Department

THE BSE LIMITED

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip code: 534976 Fax: 022-22723121

Email: corp.relations@bseindia.com

Sub: Copies of the newspaper publication

Sir,p

Please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of the audited financial results of the company for the fourth quarter and year ended 31st March, 2019, as published in terms of the Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on Saturday, 11th May 2019 in "Business Standard" – English and – "Business Standard" Hindi newspapers.

Request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours trul

For V-Mart Retail Limited

Megha Tandon

Company Secretary

Encl.: As Above

IDFC FIRST

Bank

. (रु. लाख में)

31 मार्च 2018

को समाप्त

वर्ष (अंकेक्षित) 20940

752

752

752

730

1010

हस्ता. 🖊 –

शर्मिला सहाई,

टाइमैक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)CIN: L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट चैन्नई—600031, टेली: +91 44 4564 4000 फैक्स: +91 44 4564 4022 (वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना) निम्नलिखित ऋणियों और सह-ऋणियों ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक** लिमिटेड के रूप में ज्ञार्द)से नीचे वर्णित ऋणियों और सह-ऋणियों के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभूतित हो चुके हैं। क्योंकि वे संबंधित ऋण अनुबंधों की नियम व शर्तों का पालन करने में असफल् हुए हैं और अनियमित हो चुके हैं, उनके ऋण आरबीआई

दिशा—निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) को उनकी देय राशियां निम्नलिखित तालिका में अधिक विशेष रूप से वर्णित संबंधित जारी सूचनाओं अनुसार वर्णित हैं और उक्त राशियों पर भावी ब्याज भी लागू हो जाएगा और उनसे संबंधित तिथियों से प्रभावी अनुबेंध दर के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।

	क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार		13(2) सूचना अनुसार बकाया		प्रतिभूति संपि्त का विवरण
	1	12849728		1. विनीत बंग्र	₹.	23/04/2019	प्लॉट नं. ४७, एफएफ, व् एसएफू ब्लॉक—ई,
ı			ऋण	2. पारूल गर्ग	31,58,574.40		पॉकेट 20, सेक्टर—3, रोहिणी, दिल्ली—1100

रतदुद्वारा आपको इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उनसे संबंधित तिथियों से उसपर ब्याज की अनुबंध दर और अन्य लागत, शुल्कों आदि के साथ उक्त तालिका में दर्शाए विवरण अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक** लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) को देय राशियों का भुगतान करने के लिए बुलागा जाता है, असफूल् होने पर जिसमें अधोहस्ताक्षरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) को देय राशि को वसूल करने के लिए यहां उक्त वर्णित गिरवी संपत्तियों के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के अंतर्गत प्रक्रिया करने के लिए बाधित होगा। इसके अलावा आप बिक्री / लीज या अन्यथा द्वारा उक्त प्रतिभृतित संपत्ति को हस्तांतरित करने से उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं। हस्ता. /

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) दिनांकः 11.05.2019 स्थानः दिल्ली

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)CIN: L65110TN2014PLC09779 **पंजीकृत कार्यालयः** केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड,

चेटपेट चैन्नई—600031, टेली: +91 44 4564 4000 फैक्स: +91 44 4564 4022 (वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना)

IDFC FIRST

विवरण

अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले विशिष्ट और /या असाधारण मद)

कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट

कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के बाद)

अवधि के लिए कुल समग्र आय (अवधि के लिए शामिल लाभ (कर के बाद) और अन्य समग्र आय (कर के बाद)

पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार

आरक्षित (आरक्षित मूल्यांकन को छोड़कर) अर्जन प्रति शेयर (रु. 1/- प्रत्येक के)

प्रचालनों से कुल आय

इक्विटी शेयर पूंजी

* वार्षिकीकृत नहीं

संतुलन में है।

स्थानः नोएडा

दिनांकः 09 मई, 2019

और/या असाधारण मदों के बाद)

निम्नलिखित ऋणियों और सह—ऋणियों ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंव** लिमिटेड के रूप में जात) से नीचे वर्णित प्रतिमृतित ऋण प्राप्त किया था। नीचे वर्णित ऋणियों औ सह—ऋणियों के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभृतित हो चुके हैं। क्योंकि वे संबंधित ऋण अनुबंधों की नियम व शर्तों का पालन करने में असफल हुए हैं और अनियमित हो चुके हैं, उनके ऋण आरबीआ: दिशा—निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में झात) को उनकी देय राशियां निम्नलिखित तालिका में अधिक विशेष रूप से वर्णित संबंधित जारी सूचनाओं अनुसार वर्णित हैं और उक्त राशियों पर भावी ब्याज भी लागू हो जाएगा और उनसे संबंधित तिथियों से प्रभावी अनुबंध दर के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।

क्र	ऋण	ऋण का		13(2) सूचना	सूचना	प्रतिभूति संपत्ति
सं	खाता सं.	प्रकार		अनुसार बकाया	तिथि	का विवरण
1	9532849		1. सन्नी अरोड़ा 2. विपिन कुमार अरोड़ा	₹. 18,96,240.19	23/04/2019	प्लॉट बियरिंग नं. 129 व 130 खसरा नं. 341 व 343 में से, गांव— बिंदापुर सुभाष पार्क, ब्लॉक यू, उत्तम नगर, दिल्ली—110059 की पहली मंजिल का भाग

एतद्द्वारा आपको इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उनसे संबंधित तिथियों से उसपर ब्याज की अनुबंध दर और अन्य लागत, शुल्कों आदि के साथ उक्त तालिका में दर्शाए विवरण अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक** लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) को देय राशियों का भुगतान करने के लिए बुलाया जाता है, असफल होने पर जिसमें अधोहस्ताक्षरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व मे आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) को देय राशि को वसूल करने के लिए यहां उक्त वर्णित गिरर्व संपत्तियों के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के अंतर्गत प्रक्रिया करने के लिए बाधित होगा। इसके अलावा आप बिक्री / लीज या अन्यथा द्वारा उक्त प्रतिभूतित संपत्ति को हस्तांतरित करने से उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं।

प्राधिकृत अधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड दिनांकः 11.05.2019 स्थानः दिल्ली (पूर्व में आई डीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)CIN: L65110TN2014PLC097792 पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड,

वेटपेट चैन्नई—600031, टेलीं: +91 44 4564 4000 फैक्स: +91 44 4564

(वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 13(2) के अंतर्गत सूचना)

अधानयम्, 2002 का धारा 13(2) क अतगत सूचना)
निम्नलिखित ऋणियों और सह—ऋणियों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक
लिमिटेड के रूप में जात).से नीचे वर्णित प्रतिभृतित ऋण प्राप्त किया था। नीचे वर्णित ऋणियों और
सह—ऋणियों के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभृतित हो चुके हैं। क्योंिक वे संबंधित ऋण
अनुबंधों की नियम व शर्तों का पालन करने में असफल हुए हैं और अनियमित हो चुके हैं, उनके ऋण आरबीआई
दिशा—निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में
आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में जात) को उनकी देय राशियों पन निलिखत तालिका में अधिक विशेष
रूप से वर्णित संबंधित जारी सूचनाओं अनुसार वर्णित है और उक्त राशियों पन वार्ष ब्या क्या हो। जाएगा और उनसे संबंधित तिथियों से प्रभावी अनुबंध दर के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणियों के नाम	13(2) सूचना अनुसार बकाया		प्रतिभूति संपत्ति का विवरण
1	16051006	होम ऋण	1. कपिल कुमार 2. कुमकुम झा	₹. 24,39,237.56	23/04/2019	फ्लैट नं. 406, प्लॉट नं. 03, खत्ता नं. 00127, खसरा –73ए, गांव– भंगेल, बेगमपुर, तहसील– दादरी, नोएड़ा, उत्तर प्रदेश

रतदद्वारा आपको इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उनसे संबंधित तिथियों से उसपर ब्याज की अ रापद्वार जायन इस प्रमाशन के त्यां के साथ उसते तो निर्माण के साथ उसते हैं। दर और अन्य लागत, शुल्कों आदि के साथ उसते तालिका में इंग्ला विवरण अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) को देय राशियों का भुगतान करने के लिए बुलाया जाता है, असफूल् होने पर ज़िसमें अधोहस्ताक्षरी आईडीएफसी फ्स्ट्र बैंक लिमिटेड (पूर्व में आई डीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) को देय राशि को वसूल करने के लिए यहां उक्त वर्णित गिरर्व संपत्तियों के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के अंतर्गत प्रक्रिया करने के लिए बाधित होगा। इसके अलावा आप बिक्री / लीज या अन्यथा द्वारा उक्त प्रतिभूतित संपत्ति को हस्तांतरित करने से उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं।

प्राधिकत अधिकारी दिनांकः 11.05.2019 स्थानः नोएड़ा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)

31 मार्च, 2018 को | 31 मार्च 2019 समाप्त तिमाही | को समाप्त वर्ष

(अंकेक्षित)

5511

767

767

767

781

1010

0.76

को समाप्त वर्ष

(अंकेक्षित)

42163

835

835

746

720

1010

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

Resolution Recovery & Law कलस्टर दिल्ली नार्थ-वैस्ट) ८/१, अब्दुल अजीज रोड़, डब्लू ई ए, करोल बार नई दिल्ली-110005 फोन : 40045717, 40045742,

ई—मेल : rrl_7620@obc.co.in दिनांक 10.05.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई—नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है **कि सभी खातों** का ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण A/C No.

ORBC0100419 EMD E auction A/c के स्थान पर A/c No. 04191181000043 IFSC No. ORBC0100419, in the name of EMD E auction A/c पढ़ा जाए । शेष पहले के अनुसार रहेंगी।

04191181000036 IFSC

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT SHARE CERTIFICATE(S) NO.28618 28440, 28619 & 28520 FÓR 2000 (500 EACH) EQUITY SHARES OF RS.2/ (RUPÉES TWO ONLY) EACH BEARING DISTINCTIVE NOS. 3570076-3570325 90421736-90421985; 3549476-3549725 90401136-90401385; 3570326-3570575 90421986-90422235 & 3554806 3555055. 90406466-9040671 RESPECTIVELY OF DCM SHRIRAN LTD. NEW DELHI, REGISTERED IN THE JOINT NAMES OF MAHESH CHANDRA DULI CHAND (DECEASED), ANITA SHARMA HAVE BEEN LOST. MAHESH CHANDRA AND ANITA SHARMA HAVE APPLIED FOR DELETION TRANSPOSITION OF NAME AND DEMATERIALISATION OF NAME WITH AXIS BANK LTD. ANY PERSON WHO HAS/HAVE ANY CLAIM IN RESPECT OF THE SAID SHARE CERTIFICATES SHOULD LODGE SUCH CLAIM WITH THE COMPANY AT ITS REGISTERED OFFICE AT 1ST FLOOR KANCHANJUNGA BUILDING. 18 BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI 110001, WITHIN 15 DAYS OF THE PUBLICATION OF THIS NOTICE, AFTER WHICH NO CLAIM WILL BE ENTERTAINED AND THE COMPANY WILL PROCEED TO DEMATERIALIZE THE SHARE CERTIFICATES IN FAVOUR OF MAHESH CHANDRA AND ANITA SHARMA.

सार्वजनिक सूचना

सीएए-53 / एनडी / 2019 से सम्बद्ध सीए(सीएए) 22(एनडी) 2013 कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230(1) एवं 232 और कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के मामले में . निम्न के मामले मे निम्नलिखित समामेलन की योजना के मामले में ानिशाक्षित संनामलने का बीजना के नानले ने इंडियन ड्यूरोबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय के—21/55बी,

आवेदक / हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं.

आवेदक / हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं. 2

आवदक / हस्तातरणकर्ता कम्पना नं. 1 औ
इंडियन प्यूरोबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड कप्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय के—21/55बी, घोंडा, नई दिल्ली—110053 में हैं CIN: U70101DL1994PTC05312 ई—मेल: mkjain80@gmail.com पैन: AACCS3179H

जानिक्ट इंग्जोज श्रीइयट (तानिक्ड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 25 बाजार लेन बंगाली मार्केट, नई दिल्ली—110001 में है CIN्: U72900DL2008PTC173179

ई-मेल: mukesh.aggarwal1960@rediffmail.com पेन: AADCC2681F आवेदक/हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं.

वैन : AAACE2884R आवेदक / हरतांतिरिती कम्पनी याचिका की सूचना उपरोक्त नामित याचिकाकतीओं द्वारा कम्पनी अधिनेयम, 2013 की धारा 232 के साथ पवित धारा 230 के अंतर्गत एम्पाइअर फिनकेप प्राइवेट लिमिटेड, अर्थात आवेदक / हरतांतिरिती कम्पनी के साथ इंडियन इस्तृ रेशिक हर प्राइवेट ित्सिटेड, अर्थात आवेदक / हरतांतिरणकर्ता कम्पनी नं, 1, और इंडियन

प्यूरोबिल्ड प्राइवेट लिभिटेड, अर्थात आवेदक/हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं. 2, और काम्पिटन्ट इ-फो वे प्राइवेट लिभिटेड, अर्थात आवेदक/हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं. 3, के समामेवन

आवदक / हरतातरणकता कम्पनी न 3, क समामलन की योजना पर माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आदेश द्वारा 15 अप्रेल, 2019 को एक याविका प्रस्तुत की गई थी और माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली के समक्ष कथित याविका पर सुनवाई की तिथि 03 जूलाई, 2019 निर्धारित की गई है। यदि किसी व्यक्ति को कथित याविका पर समर्थन या

आपत्ति है तो वह अपने आश्रय की सूचना, अपने नाम् एवं पते के साथ स्वयं या अपने अधिवृक्ता द्वार्

हस्ताक्षर करके याचिकाकर्ता कम्पनी के अधिवक्ता व

पास सनवाई की तिथि से 7 कार्यदिवस पर्व तक भेर

पति हुं जोई में पासि में 7 जानवित्ती के पति हैं अपने आपत्ति का कारण बताते हुए पृष्ठभूमि या शपथपत्र की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ संलग्न की जानी चाहिए। याचिका की प्रति चाहने वाले किसी भी

व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसे उपलब्ध कराय

आई—859, पालम विहार, गुरूग्राम, हरियाणा, फोन : 9810057257, 011-45656341

अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता

तिथि : 11 मई, 2019 स्थान : नई दिल्ली

घोंडा, नई दिल्ली –110053 में है CIN: U70200DL1994PTC058543 ई–मेल: mkjain80@gmail.com पैन: AAACS6592G

और काम्पिटन्ट इन्फोवे प्राइवेट लिमिटेड

के साथ एम्पाइअर फिनकेप प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अधिनियम. 1956 के अंतर्गत गतित एव कम्पनी जिल्लाक पंजीवन के जिल्ला नाठा रहे-कम्पनी जिल्लाक पंजीवन कार्यावन 25 बाज़ार ले-बेसमेंट, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली—110001 में है CIN: U65929DL1996PTC078953 −मेल : U67120DL1996PTC077884 ई—मेल: mukesh.aggarwal1960@rediffmail.com पैन : AAACE2884R

अधिकरण

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिक दिल्ली पीठ के समक्ष



IDFC FIRST

Branch- G. Noida, Plot no. S-9, Gamma Shopping Mall, Noida, Gr. Noida Road Distt. Gautam Buddha Nagar, Gr. Noida

U.P.- 201306 E-mail: br.8895@syndicatebank.co.in

मारत सरकार का उप	क्रम A Govt. or India Undertaking				
Ref No: 49128 सेवा में, कर्जदारगणः	दिनांकः 23.04.2019				
नाम	पता				
बिंदल प्लाईवुड एण्ड टिम्बर ट्रेडर्स यूनिवर्सिटी रोड़, काशीराम के पास, हॉस्पिटल, कसाना, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर— 2032					
विनय कुमार पुत्र पवन कुमार आर. के. पब्लिक स्कूल कसाना, गौतम बुद्ध नगर— 201310.					
श्रीमति सविता पत्नि विनय कुमार	आर. के. पब्लिक स्कूल कसाना, गौतम बुद्ध नगर— 203210.				
जमानती					
निश्चल तायल पुत्र अनिल तायल	शिव मैडिकोज, यूनिवर्सिटी रोड़, कसाना, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर—203210.				
अनिल तायल पुत्र जगदीश प्रसाद मैन मार्किट बिलासपुर, कसाना, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर—203210.					

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना (1) हमने, आपके अनुरोध पर, कर्जदार / रों को कुल योग राशि रू. 25,00,000 / — हेतु क्रेडिट लिमिट्स मंजूर की हैं तथा हम हमारे द्वारा प्रदान

	की गई वि	वेभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का पूर्ण विवरण	। यहां नीचे दे रहे हैं :		
	क्रम सं.	सुविधा का प्रकार / खाता संख्या	Limit/Loan Amount (Rs.)	Outstanding Liability (Rs.)	एन पी ए तारीख
1	1	88951400000634	25,00,000	26,40,112.66	20.04.2019

25,00,000 26,40,112.66 (2) चूंकि आपने देय राशियां चुकाने में चूक की है, हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपका खाता को ानार्जक आस्ति के रूप में सूचीबद्ध किया है।

(3) ऋण दस्तावेज की सहमत शर्तों के अनुसार भुगतान में लगातार चूक के दृष्टिगत, पूरी राशि देय हो चुकी है। अतः अब रू. 26,40,112.66 (रू. छबबीस लाख चालिस हजार एक सौ बारह और छासठ पैसे मात्र) की राशि दिनांक 01—04—2019 से ब्याज और लागतों इत्यादि सहित बकाया

(4) हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमारी पूरी बकाया राशि के भुगतान हेतु बारम्बार सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधो के बावजूद, आपने

(5) आपको विदित है कि हमारे द्वारा मंजूर की गई लिमिट द्वारा स्वाधिकृत निम्नलिखित आस्तियों (प्रतिभूत आस्तियों) द्वारा प्रत्याभूत है। आवासीय प्लॉट नं0.3, खाता नं0. 153, खेत नं0. 720 जिसकी माप 100 स्क्वेयर यार्ड गांव कसाना परगना, ग्रेटर नोएडा मालिक श्रीमती सविता चौहद्दी :— उत्तर : रोड़, दक्षिण : प्लॉट नं0. 2, पूर्व : प्लॉट नं0. 31, पश्चिम : रोड़ ।

(6) उपरिवर्णित कारणो के आधार पर, हम एतद्वारा आपसे हमारी पूरी बकाया राशि इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग . करते हैं, जिसमें असफल रहने पर, हम उपरिवर्णित प्रत्याभूत आस्तियों के विरूद्ध वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अधीन हमको प्राप्त शक्तियों में

(प) कर्जदार की प्रत्याभूत आस्ति का कब्जा प्राप्त करना, जिसमें प्रत्याभूत आस्ति के नकदीकरण हेतु पट्टा, समनुदेशन अथवा बिक्री द्वारा अंतरण, (पप) व्यवसाय का प्रबंधन अधिग्रहीत करना, जिसमें पट्टा, समनुदेशन अथवा बिक्री द्वारा अंतरण का अधिकार तथा प्रत्याभूत ऋण की वसूली शामिल है तथा हमारे द्वारा किए गए प्रत्याभूत आस्ति के अंतरण से अंतरित प्रत्याभूत आस्ति के संबंध में सभी अधिकार अंतरिती को इस प्रकार प्रकार प्राप्त हो जाएंगे जैसाकि आपके द्वारा किए गए अंतरण से प्राप्त होते।

(7) उपरिवर्णित शक्तियों के प्रयोग से प्राप्त होने वाली राशि सर्वप्रथम उन सभी लागतों, प्रमारों तथा खर्चों हेतु प्रयुक्त की जाएगी, जो कानून की दृष्टि में हमारे द्वारा समुचित उपगत किए गए हैं अथवा उनके अनुषगी हैं और द्वितीयतः हमारी उपरिवर्णित बकाया राशि, इस सूचना की तिथि से वास्तविक वसूली तक संविदात्मक दर पर ब्याज चुकाने हेतु प्रयुक्त की जाएगी, तथा शेष राशि, यदि कोई होगी, आपको अदा कर दी जाएगी। (8) कृपया नोट करें कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद, आप इस सूचना में संदर्भित किसी भी प्रत्यामूत आस्ति का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रका से अंतरण, बैंक (प्रत्याभूत लेनदार) की लिखित सहमति के बिना नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया तो यह अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय

(9) आपका का ध्यान, प्रत्यामूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की घारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधान की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

(10) कृपया यह भी नोट करें कि यह सूचना पूरी बकाया राशि अथवा उसके किसी अंश की वसूली, उसकी वसूली की तिथि तक देय ब्याज एव लागतों के साथ करने के लिए आपके विरूद्ध डीआरटी / सक्षम न्यायालय में कार्यवाही आरंभ करने के बैंक के अधिकार को प्रतिकूल प्रमावित

दिनांक- 23.04.2019 स्थान-ग्रेटर नोएडा प्राधिकृत अधिकारी

Extract of Audited Financial Results for the Quarter & Year ended 31st March 2019

					₹in lacs (ex	ccept per share da
			Quarter ended	Year ended		
S. No.	Particulars	31.03.2019 (Audited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.03.2018 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)
1	Total Income	34,678.71	46,755.42	29,858.95	143,966.78	122,651.30
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,245.49	6,702.48	1,746.66	10,961.04	11,246.66
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	510.55	6,702.48	1,746.66	9,981.10	11,246.6
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(90.02)	4,168.41	1,591.47	6,162.62	7,770.4
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(162.52)	4,171.90	1,637.79	6,126.95	7,799.1
6	Paid up equity share capital (face value of ₹10 per share each)	1,813.00	1,812.72	1,809.74	1,813.00	1,809.74
7	Reserves excluding revaluation reserves as per balance sheet of previous accounting year				39,114.04	32,934.4
•	Earnings Per Share (of ₹10/– each) (not annualized) –					
8	(a) Basic	(0.50)	23.00	8.79	34.01	42.9
	(b) Diluted	(0.50)	22.99	8.76	33.90	42.79

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarterly financial results is available on the Stock Exchanges websites - www.nseindia.com/www.bseindia.com and on the Company's Website - www.vmart.co.in

The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind -AS') as notified under the the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified in section 133 of the Companies Act,

The said financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 10 May 2019

For and on behalf of the Board of Directors of

Chairman & Managing Director DIN: 00900900

Lalit Agarwal

Place: Gurugram **Date:** 10 May, 2019

V-MART RETAIL LIMITED

Regd. Off. - 610-611, Guru Ram Dass Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi - 110092.

Corporate Off. - Plot No. 862, Udyog Vihar, Industrial Area, Phase - V, Gurugram - 122016

Tel.:0124-4640030; Fax: 0124-4640046; Email: info@vmart.co.in;

निदेशक मंडल की ओर से और उन्हीं के लिए

1. उक्त वित्तीय परिणामों की लेखा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 09 मई, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है ।

प्राक्तप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.timexindia.com) पर भी उपलब्ध है।

१. उक्त वित्तीय परिणाम सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर 31 मार्च

2019 को समाप्त तिमाही व वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का निष्कर्ष है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही व वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का पूर्ण

3. 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए आंकड़ों को 31 दिसंबर को समाप्त नौ माह तक के अनंकेक्षित आंकड़ों व पूर्ण वर्ष के संबंध में अंकेक्षित आंकड़ों के बीच आंकड़ों के

टाइमैक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड CIN No.: L33301DL1988PLC033434

इंमेलः investor.relations@timex.com, वेबसाइटः www.timexindia.com 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष

31 मार्च,2019 समाप्त तिमाही

(अंकेक्षित)

5820

537

518

507

1010

पंजी. कार्यालयः 106–107, अम्बादीप, 14 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001 फोनः 91–120–4741300, फैक्सः 91–120–4741440

C EICHER **EICHER MOTORS LIMITED**

CIN: L34102DL1982PLC129877 Registered Office: 3rd Floor-Select Citywalk, A-3 District Centre, Saket, New Delhi110017 Corporate Office: #96, Sector 32, Gurugram - 122 001, Haryana

Telephone: +91 124-4415600 Email: investors@eichermotors.com Website: www.eichermotors.com

STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2019

	(₹ in Crores)							
	Particulars For the Quarter ended For the year ended							
	Turiodiaro	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018		
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)		
1.	Total revenue from operations	2,500.08	2,341.06	2,528.01	9,797.06	9,219.26		
2.	Profit before share of profit of Joint venture and tax from continuing operation	744.12	747.94	816.81	3,038.89	2,859.09		
3.	Share of profit of Joint venture (VE Commercial Vehicles Limited)	75.47	41.47	96.25	258.40	256.56		
4.	Net Profit after tax and share of profit of Joint venture from continuing operation	544.84	532.95	648.56	2,220.25	2,179.72		
5.	Share of loss of Joint venture from discontinued operation (Eicher Polaris Private Limited)	_	-	(187.03)	(17.52)	(220.05		
6.	Total Comprehensive Income	550.09	522.16	469.24	2,196.53	1,969.6		
7.	Equity Share Capital	27.28	27.27	27.26	27.28	27.20		
8.	Reserves				8,891.44	7,002.8		
9.	Earnings Per Share on net profit after tax (of ₹ 10 each) (not annualised) in ₹ :							
	For Continuing Operations							
	(a) Basic	199.73	195.42	238.02	814.18	800.5		
	(b) Diluted	199.59	195.23	237.60	813.28	798.9		
	For Discontinued Operations							
	(a) Basic	-	-	(68.64)	(6.42)	(80.81		
	(b) Diluted	-	-	(68.52)	(6.42)	(80.66		
	For Continuing and Discontinued Operations							
	(a) Basic	199.73	195.42	169.38	807.76	719.6		
	(b) Diluted	199.59	195.23	169.08	806.86	718.3		

ey numbers of Standalone Financial Results: (₹ in Crores)						
Particulars	Fo	r the Quarter e	For the year ended			
T di tiodidio	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
Total revenue from operations	2,499.60	2,345.92	2,529.77	9,794.48	9,211.81	
Profit before exceptional item and tax	754.85	759.18	837.45	3,150.50	2,960.25	
Exceptional item	-	-	311.98	17.52	311.98	
Profit before tax	754.85	759.18	525.47	3,132.98	2,648.27	
Net Profit after tax	480.44	501.41	260.13	2,054.44	1,712.91	
Total Comprehensive Income	484.42	488.31	268.74	2,048.67	1,723.76	

Place : New Delhi

Date: May 10, 2019

- The above is an extract of the detailed format of audited consolidated Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Quarterly Financial Results (consolidated and Standalone) are available on Company's website - www.eichermotors.com and also on the website of
- stock exchanges i.e NSE -www.nseindia.com and BSE www.bseindia.com. 2. Consequent to the introduction of Goods and Services Tax (GST) with effect from July 1, 2017, Excise Duty, Value Added Tax (VAT) etc, have been subsumed into GST. In accordance with Ind AS - 18 / Ind AS - 115 and Schedule III of the Companies Act, 2013, unlike Excise Duty, levies like GST are not considered to be a part of Revenue from operations. Accordingly, the figures for the periods upto June 30,
 - 2017 are not strictly comparable to those thereafter. The Board of directors at their meeting held on May 10, 2019, considered and recommended a final dividend aggregating Rs. 341.03 crores @ Rs. 125 per share (nominal value Rs. 10 per share) for the financial year 2018-19 (final dividend paid for previous year Rs. 299.93 crores @ Rs. 110 per share)

For and on behalf of the Board

Siddhartha Lal **Managing Director**

Sd/-

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT

SHARE CERTIFICATE(S) NO.28618

28440, 28619 & 28520 FOR 2000 (500

EACH) EQUITY SHARES OF RS.2/

(RUPEES TWO ONLY) EACH BEARING

DISTINCTIVE NOS. 3570076-3570325

90421736-90421985: 3549476-3549725

90401136-90401385; 3570326-3570575

90421986-90422235 & 3554806

3555055 90406466-9040671

RESPECTIVELY OF DCM SHRIRAM

LTD. NEW DELHI, REGISTERED IN THE

JOINT NAMES OF MAHESH CHANDRA

DULI CHAND (DECEASED), ANITA

SHARMA HAVE BEEN LOST. MAHESH CHANDRA AND ANITA SHARMA HAVE APPLIED FOR DELETION

TRANSPOSITION OF NAME AND

DEMATERIALISATION OF NAME WITH AXIS BANK LTD. ANY PERSON

RESPECT OF THE SAID SHARE CERTIFICATES SHOULD LODGE SUCH

CLAIM WITH THE COMPANY AT ITS

REGISTERED OFFICE AT 1ST FLOOR

KANCHANJUNGA BUILDING. 1

BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI

110001, WITHIN 15 DAYS OF THE

PUBLICATION OF THIS NOTICE, AFTER

WHICH NO CLAIM WILL BE

ENTERTAINED AND THE COMPANY

WILL PROCEED TO DEMATERIALIZE

THE SHARE CERTIFICATES IN

FAVOUR OF MAHESH CHANDRA AND

ANITA SHARMA

HAS/HAVE ANY CLAIM IN



Aapki Jeet, Hamari Jeet **ASHOK LEYLAND LIMITED**

Registered Office : 1, Sardar Patel Road, Guindy, Chennai - 600 032 Tel:+91 44 2220 6000 Fax :+91 44 2220 6001 CIN: L34101TN1948PLC000105 Website: www.ashoklevland.com NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday**, **May 24**, **2019** at Chennai to inter alia consider and approve the standalone and consolidated audited financial results of the Company for the quarter and year ended March 31 2019 and to recommend a dividend, if any, on the equity shares of the Company for the financial year ended March 31, 2019.

The Notice is also available on the Company's website at www.ashokleyland.com and on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com.and.www.nseindia.com

For Ashok Leyland Limited

H) HINDUJA GROUP

(CK BIRLA GROUP HiL HIL LIMITED

CIN: L74999TG1955PLC000656 CIN: L/A991G1959-TCU00659 Regd. Off: Office No. 1 & 2, 17 Floor, SLN Terminus, Survey No. 133, Near Botanical Gardens, Gachibowli, Hyderabad - 500032, Telangana Tel: 040-30999000, Website: www.hil.ir

Pursuant to Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of on **Monday, May 27, 2019 at 4.00 PM** at 10th Floor, Birla Towers, Barakhamba Road, New Delhi-110001, inter-alia to consider and take on record, among other matters, the Audited Financial Results (Standalone & Consolidated of the Company for the quarter and vear ended March 31, 2019. In regard to the above, Trading Windo will be closed upto May 29, 2019 for

all the Designated Employees. The intimation sent to Stock Exchange is available at the website of the Company www.hil.in/investors and on the website of National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange

For HII Limited Date: 10.05.2019 (Company Secretary & Place: Hyderabad Financial Controller)



CIN: L55101WB1999PLC090672 Read. Office: "Uniworth House" , Gurusaday Road, Kolkata 700 019 Tel.No. (91 33) 2283 7964/65/66. Fax No. (91 33) 2280 9282. Website: www.speciality.co.ir Email: corporate@speciality.co.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing **Obligations and Disclosure Requirements** Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held or Wednesday, May 29, 2019, inter-alia. to consider the following matters:

Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2019 Approval of the Consolidated Financial

1. Approval of the Standalone Audited

- Results of the Company for the financial year ended March 31, 2019 Adoption of the Audited Standalone and
- Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended March 31, 2019.
- of the Chairman.

This information is also available on the Company's website at www.speciality.co.in and may also be available on the Stock Exchanges at www.nseindia.com and

For SPECIALITY RESTAURANTS LIMITE Avinash Kinhika npany Secretary & Legal Head Date: May 10, 2019

Weekend **Business Standard DELHI EDITION**

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8. Sector-7. Noida. Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadui Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor: Shvamal Majumdar RNI No. DELENG/2013/53036 Readers should write their feedback at

feedback@bsmail.in Ph. 011-23720202, Fax :+91-11-23720201 For Subscription and Circulation enquiries please contact:

Ms. Mansi Singh Head-Customer Relations Business Standard Private Limited. 3rd & 4th floor, Building H, aragon Condominium, Opp Century Mills P B Marg, Worli, Mumbai - 400 013 E-mail: subs_bs@bsmail.in

"or sms, SUB BS to 57007" DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present a unbiased picture of developments in the mar different owing to circumstances beyon Business Standard's control and knowledge Business Standard does not take any respo

kets, the corporate world and the govern ment. Actual developments can turn out to b taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Reader are expected to form their own judgement. Business Standard does not associate itse with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned.

Unless explicitly stated otherwise, all right reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, mission or redissemination of the co tents, in any form or by any means, is proh ited without the prior written consent of M/s usiness Standard Pvt. Ltd. Any such prohib ited and unauthorised act by any person/lega entity shall invite civil and criminal liabilities

No Air Surcharge

Form No. INC-26

[Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, DELHI MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS DELHI

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013, and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of MNC BUILDCON PRIVATE LIMITED (CIN-U45201DL2006PTC145911) having its Registered Office at C-4/1, 100 Feet Road, North Chajjupur, Shahdara, Delhi-110094, India, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extraordinary general meeting held on10th April, 2019 to enable the company to change its Registered office from "NCT of Delhi" to the "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Delhi at B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi – 110003, India within 14 fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered

Office at the address mentioned below "C-4/1, 100 Feet Road, North Chajjupur, Shahdara, Delhi-110094, India" For and on behalf of the Applicant MNC Buildcon Private Limited Subhash Chander Director DIN:01710130

TILLERS TRACTORS LTD.



CIN- L34101KA1967PLC001706



Regd. Off: Plot No.1, Dyavasandra Industrial Layout, Whitefield Road, Mahadevapura Post, Bangalore 560 048. Ph: 080-67141111 Fax: 080-28510221 email: vstgen@vsttillers.com www.vsttillers.com

Standalone Audited Financial Results for

Quarter and Year ended 31/03/2019 (Rs. In Lakhs except EPS)							
Particulars	Quarter ended 31/03/2019 (Audited)	Year ended 31/03/2019 (Audited)	Quarter Ended 31/03/2018 (Audited)				
Total income from operations	19,258	65,846	25,096				
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,846	7,153	4,836				
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,846	7,153	4,836				
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,238	4,606	3,370				
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,228	4,552	3,379				
Equity Share Capital	864	864	864				
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	58,126	-				
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing & discontinued operations) basic & diluted	14.33	53.31	39.01				

Note: The Board has recommended 150% Dividend i.e. Rs 15/- per equity share of Rs.10 each, for the financial year

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.nseindia.com, www.bseindia.com and http://www.vsttillers.com/investors/financial-results)

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as modified by Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016.

for and on behalf of the Board of Directors

Date: 10/05/2019 (V.P. Mahendra) Vice Chairman & Managing Director Place: Bangalore



Extract of Audited Financial Results for the Quarter & Year ended 31st March 2019

	Extract of Address Financial Results for the address a fear chaed sistematical 2015										
₹in lacs (except p											
	Particulars		Quarter ended	Year ended							
S. No.		31.03.2019 (Audited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.03.2018 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)					
1	Total Income	34,678.71	46,755.42	29,858.95	143,966.78	122,651.30					
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,245.49	6,702.48	1,746.66	10,961.04	11,246.66					
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	510.55	6,702.48	1,746.66	9,981.10	11,246.66					
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(90.02)	4,168.41	1,591.47	6,162.62	7,770.41					
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(162.52)	4,171.90	1,637.79	6,126.95	7,799.19					
6	Paid up equity share capital (face value of ₹10 per share each)	1,813.00	1,812.72	1,809.74	1,813.00	1,809.74					
7	Reserves excluding revaluation reserves as per balance sheet of previous accounting year				39,114.04	32,934.40					
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (not annualized) -										
"	(a) Basic	(0.50)	23.00	8.79	34.01	42.94					
	(b) Diluted	(0.50)	22.99	8.76	33.90	42.79					

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and $\,$ Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarterly financial results is available on the Stock Exchanges websites - www.nseindia.com/www.bseindia.com and on the Company's Website - www.vmart.co.in

The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind -AS') as notified $under the the Companies (Indian Accounting Standards) \, Rules, 2015\, as\, specified in\, section\, 133\, of\, the\, Companies\, Act,$

The said financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 10 May 2019

For and on behalf of the Board of Directors of **Lalit Agarwal**

Chairman & Managing Director DIN: 00900900

Place: Gurugram Date: 10 May, 2019

V-MART RETAIL LIMITED

Regd. Off. - 610-611, Guru Ram Dass Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi - 110092.

Corporate Off. - Plot No. 862, Udyog Vihar, Industrial Area, Phase - V, Gurugram - 122016

C EICHER **EICHER MOTORS LIMITED**

CIN: L34102DL1982PLC129877

Registered Office: 3rd Floor-Select Citywalk, A-3 District Centre, Saket, New Delhi110017 Corporate Office: #96, Sector 32, Gurugram - 122 001, Haryana Telephone: +91 124-4415600 Email: investors@eichermotors.com Website: www.eichermotors.com

STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Crores

	Particulars	For	the Quarter er	nded	For the year ended		
		31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1.	Total revenue from operations	2,500.08	2,341.06	2,528.01	9,797.06	9,219.26	
2.	Profit before share of profit of Joint venture and tax from continuing operation	744.12	747.94	816.81	3,038.89	2,859.09	
3.	Share of profit of Joint venture (VE Commercial Vehicles Limited)	75.47	41.47	96.25	258.40	256.56	
4.	Net Profit after tax and share of profit of Joint venture from continuing operation	544.84	532.95	648.56	2,220.25	2,179.72	
5.	Share of loss of Joint venture from discontinued operation (Eicher Polaris Private Limited)	-	-	(187.03)	(17.52)	(220.05)	
6.	Total Comprehensive Income	550.09	522.16	469.24	2,196.53	1,969.64	
7.	Equity Share Capital	27.28	27.27	27.26	27.28	27.26	
8.	Reserves				8,891.44	7,002.81	
9.	Earnings Per Share on net profit after tax (of ₹ 10 each) (not annualised) in ₹ :						
	For Continuing Operations						
	(a) Basic	199.73	195.42	238.02	814.18	800.50	
	(b) Diluted	199.59	195.23	237.60	813.28	798.99	
	For Discontinued Operations						
	(a) Basic	-	-	(68.64)	(6.42)	(80.81)	
	(b) Diluted	-	-	(68.52)	(6.42)	(80.66)	
	For Continuing and Discontinued Operations						
	(a) Basic	199.73	195.42	169.38	807.76	719.69	
	(b) Diluted	199.59	195.23	169.08	806.86	718.33	

(₹ in Crores)					
Particulars	For	the Quarter e	For the year ended		
	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total revenue from operations	2,499.60	2,345.92	2,529.77	9,794.48	9,211.81
Profit before exceptional item and tax	754.85	759.18	837.45	3,150.50	2,960.25
Exceptional item	-	-	311.98	17.52	311.98
Profit before tax	754.85	759.18	525.47	3,132.98	2,648.27
Net Profit after tax	480.44	501.41	260.13	2,054.44	1,712.91
Total Comprehensive Income	484.42	488.31	268.74	2,048.67	1,723.76

- 1. The above is an extract of the detailed format of audited consolidated Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Quarterly Financial Results (consolidated and Standalone) are available on Company's website - www.eichermotors.com and also on the website of stock exchanges i.e NSE -www.nseindia.com and BSE - www.bseindia.com
- 2. Consequent to the introduction of Goods and Services Tax (GST) with effect from July 1, 2017, Excise Duty, Value Added Tax (VAT) etc have been subsumed into GST. In accordance with Ind AS - 18 / Ind AS - 115 and Schedule III of the Companies Act, 2013, unlike Excise Duty, levies like GST are not considered to be a part of Revenue from operations. Accordingly, the figures for the periods upto June 30 2017 are not strictly comparable to those thereafter.
- 3. The Board of directors at their meeting held on May 10, 2019, considered and recommended a final dividend aggregating Rs. 341.03 crores @ Rs. 125 per share (nominal value Rs. 10 per share) for the financial year 2018-19 (final dividend paid for previous year Rs. 299.93 crores @ Rs. 110 per share)

For and on behalf of the Board

Place: New Delhi Date: May 10, 2019

Siddhartha La **Managing Director**



DILIP BUILDCON LIMITED

Registered Office: Plot No. 5. Inside Govind Narayan Singh Gate. Chuna Bhatti, Kolar Raod, Bhopal-462016. Madhya Pradesh (CIN: L45201MP2006PLC018689)

India's Largest Road Construction Company



17

States









Rs.21,172 Crores Order Book

Equipments

35,153 **Employees**

Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31 March 2019

Revenue 916,461

18.08%

EBITDA 165,077

16.39%

PAT 76,385 23.08%

(₹ in lakhs)

PART I (₹ in lakhs								
Sr. No	Particulars	Standalone					Consolidated	
		Quarter ended			Year ended		Year ended	
		31-Mar-19	31-Dec-18	31-Mar-18	31-Mar-19	31-Mar-18	31-Mar-19	31-Mar-18
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	259,001.07	249,264.01	256,196.52	916,460.83	776,139.55	946,315.47	795,468.47
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	21,991.64	20,691.03	21,735.97	76,494.08	62,030.10	54,744.64	57,764.36
3	Total Comprehensive income [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	21,963.70	20,857.70	21,769.29	76,385.02	62,062.95	54,635.58	57,797.21
4	Equity share capital	13,676.98	13,676.98	13,676.98	13,676.98	13,676.98	13,676.98	13,676.98
5	Earnings Per Share (before extraordinary items)(of Rs. 10/-each)(not annualised):							
	(a) Basic	16.06	15.25	15.89	55.93	45.35	39.95	42.23
	(b) Diluted	16.06	15.25	15.89	55.93	45.35	39.95	42.23
6	Earnings Per Share (after extraordinary items)(of Rs. 10/-each)(not annualised):							
	(a) Basic	16.06	15.25	15.89	55.93	45.35	39.95	42.23
	(b) Diluted	16.06	15.25	15.89	55.93	45.35	39.95	42.23

- 1- The above results were reviewed by the Audit Committee and were approved & taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 10 May
- 2- Results for the quarter and year ended 31 March 2019 are in compliance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified by the Ministry of Corporate
- 3- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website, www.dilipbuildcon.co.in
- 4- Figures for the earlier periods have been regrouped wherever necessary

For and on behalf of the Board of Directors of **Dilip Buildcon Limited**

> Dilip Suryavanshi **Managing Director** DIN - 00039944

Place: Bhopal Date : 10th May 2019